

## स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल

[काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान](#) और [टाइगर रज़िर्व, असम](#) में महावत (हाथी के रखवाले एवं चालक) का कार्य करने वाले तीन व्यक्तियों को [सवचछ जल](#) के कछुए की [दुर्लभ प्रजाति स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल](#) को पकड़ने तथा खाने के आरोप में गरिफ्तार किया गया है।

- इस घटना ने पार्क के कर्मचारियों द्वारा संरक्षित प्रजातियों के अवैध उपभोग को लेकर चिंता जताई है, यही कारण है कि जाँच और गरिफ्तारी की कार्रवाई तेज़ कर दी गई है।

## स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल:

- **परिचय:** स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल ([जियोक्लेमसि हैमिल्टन/Geoclemys hamiltonii](#)) का नाम उनके काले सरि, पैर और पूँछ पर पीले या सफेद धब्बों के कारण रखा गया है। उनका सरि बड़ा एवं छोटे थूथन होते हैं तथा झलिलीदार पैर उन्हें तैरने में मदद करते हैं।
  - इन्हें **ब्लैक पॉन्ड टर्टल**, **ब्लैक स्पॉटेड टर्टल**, **हैमिल्टनस टैरापनि** के नाम से भी जाना जाता है।
  - वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिये धूप में रहते हैं। इनके लिये गर्म जल की आवश्यकता और गहन स्नान क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है।
  - स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल जब अपने खोल में पीछे हटते हैं, तब **करकश ध्वनि** निकालते हैं।
- **सीमा और आवास:** ये भारत में असम तथा साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में लंबी व गहरी नदियों में पाए जाते हैं।
  - भारत में इनकी प्रजातियाँ **उत्तर, पूर्वोत्तर और मध्य भारत के कुछ भागों में वसित हैं**
- **आहार आवश्यकताएँ:** ये कछुए मुख्य रूप से [मांसाहारी](#) होते हैं और जलीय अकशेरुकीय जीवों को खाते हैं।
- **नींद की आदतें:** स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल [संध्याचर](#) (Crepuscular) होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे गोधूलि (शाम और सुबह) में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
- **संरक्षण की स्थिति:**


[अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ](#) (International Union for Conservation of Nature- IUCN): संकटग्रस्त

- [वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन](#) (CITES): परशिष्ट- I



## काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान:

- **अवस्थिति:** यह असम राज्य में स्थित है और 42,996 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी बाढ़ के मैदान में सबसे बड़ा अबाधित और प्रतिनिधिक क्षेत्र है।
- **कानूनी दर्जा:**
  - इसे वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
  - इसे वर्ष 2007 में एक बाघ आरक्षण घोषित किया गया। इसका कुल बाघ आरक्षण क्षेत्र 1,030 वर्ग कमी. है, जिसका मुख्य क्षेत्र 430 वर्ग कमी. है।
- **अंतर्राष्ट्रीय दर्जा:**
  - इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
  - इसे बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक प्रमुख पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- **पाए जाने वाले प्रमुख प्रजातियाँ:**
  - यहाँ विश्व भर के सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। पोबतिरा वन्यजीव अभयारण्य में विश्व में एक सींग वाले गैंडों का घनत्व सबसे अधिक है और काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद असम में गैंडों की संख्या सबसे अधिक है।
  - काज़ीरंगा में संरक्षण पर्याप्तों का अधिकांश फोकस 'बगि फोर' प्रजातियों- गैंडा, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई जल भैंस पर केंद्रित है।
  - काज़ीरंगा भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली प्राइमेट्स की 14 प्रजातियों में से 9 का आवास है।
- **नदियाँ और राजमार्ग:**
  - राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पार्क क्षेत्रों से होकर गुज़रता है।
  - पार्क में 250 से अधिक मौसमी जल नकियाय भी हैं, इसके अलावा डिप्लू नदी (Diphlu River) पार्क से होकर प्रवाहित होती है।
- **असम में अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं:**
  - डब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान।
  - [मानस नेशनल पार्क](#)।
  - नमेरी राष्ट्रीय उद्यान।
  - राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान।



## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????????:**

प्रश्न. नमिनलखिति युग्मों पर वचिर कीजयि: (2013)

राष्ट्रीय उद्यान                      उद्यान से होकर बहने वाली नदी

1. कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान                      - गंगा
2. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान                      - मानस
3. साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान                      - कावेरी

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलति है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) 1 और 3
- (d) कोई नहीं

उत्तर: (d)

प्रश्न. नमिनलखिति भारतीय प्राणीजात पर वचिर कीजयि: (2013)

1. घड़ियाल
2. चरमपीठ कूर्म (लेदरबैक टर्टल)
3. अनूप मृग

उपर्युक्त में से कौन-सा/से संकटापन्न है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) 1, 2 और 3
- (d) कोई नहीं

उत्तर: (c)

स्रोत: द हट्टि

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/spotted-pond-turtles>

